

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14092024-257191  
SG-DL-E-14092024-257191असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 186
No. 236]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946	[N. C. T. D. No. 186

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIकार्यालय आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर  
अधिसूचना

दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024

फा. सं. 8(19)/2022/आब./स्था./1402-1408.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या एफ 27/59/एमआईएन (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार द्वारा जारी दिनांक 10.03.1999 की समस्त अधिसूचना संख्या फा. 10(40)/97/वित्त (जी)/2224 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा कार्यालय-आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, दिल्ली में रासायनिक सहायक (समूह -ग) के पद की भर्ती पद्धति के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(1) इन नियमों को रासायनिक सहायक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जायेगा।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता:**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।6. **बचाव:**—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	रासायनिक सहायक
2.	पदों की संख्या	:	4 *(2024) * परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर है।
3.	पदों का वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—5(रुपये 29200—92300 /— )
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	गैर चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—25 *वर्ष की आयु के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय) <b>टीप:-</b> आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी। * यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जा रहा है, तो आयु सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी। <b>महत्वपूर्ण विवरण :</b> भारत में रह रहे उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी। (लेकिन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिवीजन तथा लाहौल एवं स्पीति जिला, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	<b>अनिवार्य:</b> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. में रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में। तथा रासायनिक विश्लेषण/अनुसंधान में 02 वर्ष का अनुभव या किसी सरकारी प्रयोगशाला अथवा एनएबीएल से अनुमोदित निजी संस्थान/प्रयोगशाला से मादक पदार्थ विश्लेषण में 02 वर्ष का अनुभव, यद्यपि उसने विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक, रासायनिक सहायक, वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक इत्यादि की क्षमता के रूप में रासायनिक/अनुसंधान/मादक पदार्थ में कार्य किया हो। या

		<p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एससी0 स्तर पर रसायन विज्ञान के एक विषय के रूप में होने के साथ रसायन विज्ञान / जैव-रसायन विज्ञान / फोरेंसिक में एम0एससी0।</p> <p>तथा</p> <p>रासायनिक विश्लेषण/अनुसंधान में 01 वर्ष का अनुभव या किसी सरकारी प्रयोगशाला अथवा एनएबीएल से अनुमोदित निजी संस्थान/प्रयोगशाला से मादक पदार्थ विश्लेषण में 01 वर्ष का अनुभव, यद्यपि उसने विश्लेषक, कनिष्ठ विश्लेषक, रासायनिक सहायक, वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक इत्यादि की क्षमता के रूप में रासायनिक/अनुसंधान/मादक पदार्थ में कार्य किया हो।</p> <p><b>टीप 1:</b> अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p> <p><b>टीप 2:</b> यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: <p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यता : नहीं</p>
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	: 02 वर्ष, केवल सीधी भर्ती वाले के लिए
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: <p>50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा</p> <p>50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p>
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	: <p><b>पदोन्नति :-</b></p> <p>ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक के वेतन स्तर-4 (25500-81,100/-रुपये) में प्रयोगशाला सहायक से।</p> <p><b>टीप:-</b></p> <p>जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :-</b></p> <p>(क) (i) केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी।</p> <p>या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक के वेतन स्तर-4 (25500-81,100/-रुपये) में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित।</p> <p>तथा</p> <p>(ख) कॉलम सं. 7 में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हो।</p> <p><b>टीप 1:-</b>भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p>

		<p><b>टीप 2:-</b> (प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) भी सम्मिलित है; यह सामान्यतः 03 (तीन) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को 56 (छप्पन) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	<p><b>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण के विचारार्थ) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रधान सचिव / सचिव (पीडब्ल्यूडी) —अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित विभागाध्यक्ष अर्थात् आयुक्त (आबकारी) —सदस्य</li> <li>3. उप-सचिव (यूडी) —सदस्य</li> </ol> <p><b>टीप:-</b>यदि विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
वी.पी. झा, सहायक आयुक्त (प्रशासन)

## OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENTERTAINMENT AND LUXURY TAX

### NOTIFICATION

Delhi, the 13th September, 2024

**F. No. 8(19)/2022/Ex/Estt./1402-1408.**—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, read with the Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F.27/59-Min (i) dated. The 13 July, 1959 and in supersession of all Notification No. F.10(40)/97/Fin (G)/2224 dated 10.03.1999 issued by this Government except as respect things done on omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to the post of Chemical Assistant (Group-'C') in the Office of the Commissioner Excise, Entertainment and Luxury Tax, Delhi namely:-

- Short title and Commencement:-**(1) These rules may be called the Chemical Assistant Recruitment Rules, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix:-**The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed in these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc:**The method of recruitment, age-limits, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to 13 of the said schedule.
- Disqualification:-**No person,-  
a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person  
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law

applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
6. **Saving**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

NAME OF THE POST	NUMBER OF POSTS	CLASSIFICATION OF THE POST	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION OR NON-SELECTION POST
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chemical Assistant	4* (2024) *subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix	Non-Selection
AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS	EDUCATIONAL & OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.		WHETHER AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES	PERIOD OF PROBATION, IF ANY
(6)	(7)		(8)	(9)
Between 18-25* years (The upper age limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years. <b>Crucial description:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing	<b>Essential:</b> (i) B.Sc. with Chemistry as one of the subject from a recognized University. <b>AND</b> (ii) 02 years Experience in Chemical Analysis/ Research or 02 years experience in intoxicating Analysis from any Govt. Laboratory or NABL approved Pvt. Institute/Laboratory working in Chemical Analysis/Research/Intoxicating substance whatever the capacity like Analyst, Jr. Analyst, Chemical Asstt., Chemist, Scientist, Asstt. Scientist etc. <b>OR</b> (i) M.Sc. in Chemistry/Bio-Chemistry/Forensic Science with Chemistry as one of the subject at B.Sc. level from a recognized University. <b>AND</b> (ii) One year experience in Chemical analysis/ Research or 01 year experience in intoxicating Analysis from any Govt. Laboratory or NABL approved Pvt. Institute/Laboratory working in Chemical Analysis/ Research/ Intoxicating substance whatever the capacity like Analyst, Jr. Analyst, Chemical Asstt., Chemist, Scientist, Asstt. Scientist etc. <b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the		Age: No  Edu. Qly: No	02 Years for direct recruits only

date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
<b>METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS</b>	<b>IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/ DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE</b>	<b>IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION</b>	<b>CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT</b>
<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
50% by promotion failing which by Deputation 50% by direct recruitment	<p><b>Promotion:</b> From Laboratory Asst. in the pay Level of 4 (Rs.25500-81100) of the pay matrix having 5 years of regular service in the grade.</p> <p><b>Note:-</b> where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b> (a) (i) Official under Central/ State/UTs holding analogous Posts on regular basis.</p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p>(ii) With 5 years of regular service in the pay level 4 (Rs.25500-81100) of the pay matrix</p> <p style="text-align: center;"><b>AND</b></p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for the direct recruits in Column No. 7.</p> <p><b>Note 1:</b> The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion.</p>	<p>Group 'C' DPC (for considering promotion and confirmation)</p> <p>1. Principal Secretary/Secretary (PWD) - Chairman 2. Head of Department concerned i.e. Commissioner (Excise) - Member 3. Deputy Secretary (UD) - Member</p> <p><b>Note:</b> Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.</p>	Not Applicable

	<b>Note 2:</b> (Period of Deputation (ISTC) including period of deputations (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the central government shall ordinarily not to exceed 03 (Three) years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 (fifty six) years as on the closing date of receipt of applications)		
--	--	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
V.P. JHA, Assistant Commissioner (Admn.)